

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B.Com. (SEM.-VI) (NEP) EXAMINATION, 2025-26

COMMERCE

(Auditing)

Paper Code

C	0	1	0	6	0	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---

Question Booklet
Series

B

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer only 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को केवल 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छँटना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

- | | |
|---|---|
| <p>1. The auditor is liable for :</p> <p>(A) Profits of company</p> <p>(B) Business losses</p> <p>(C) Negligence in performance of duties</p> <p>(D) Market fluctuations</p> | <p>1. अंकेक्षक उत्तरदायी है :</p> <p>(A) कम्पनी के लाभ के लिए</p> <p>(B) व्यवसाय के नुकसान के लिए</p> <p>(C) अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही के लिए</p> <p>(D) बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए</p> |
| <p>2. Civil liability of auditor arises when :</p> <p>(A) Criminal offence committed</p> <p>(B) He causes loss due to negligence</p> <p>(C) He resigns</p> <p>(D) Company earns profit</p> | <p>2. अंकेक्षक की नागरिक देनदारी उत्पन्न होती है, जब :</p> <p>(A) आपराधिक अपराध हो</p> <p>(B) लापरवाही से नुकसान हो</p> <p>(C) वह इस्तीफा दे दे</p> <p>(D) कम्पनी लाभ कमाए</p> |
| <p>3. Criminal liability of auditor arises when :</p> <p>(A) Minor mistake occurs</p> <p>(B) Accounts are delayed</p> <p>(C) He intentionally makes false statements</p> <p>(D) Dividend not declared</p> | <p>3. अंकेक्षक की आपराधिक देनदारी उत्पन्न होती है, जब :</p> <p>(A) छोटी गलती हो</p> <p>(B) खाते देर से बनें</p> <p>(C) वह जानबूझकर गलत कथन दे</p> <p>(D) लाभांश घोषित न हो</p> |
| <p>4. Share capital audit includes verification of :</p> <p>(A) Creditors</p> <p>(B) Debtors</p> <p>(C) Issue and allotment of shares</p> <p>(D) Salaries</p> | <p>4. अंश पूँजी अंकेक्षण में क्या सत्यापित किया जाता है?</p> <p>(A) देनदार</p> <p>(B) लेनदार</p> <p>(C) अंशों का निर्गमन और आवंटन</p> <p>(D) वेतन</p> |
| <p>5. Share transfer audit ensures:</p> <p>(A) Profit calculation</p> <p>(B) Proper transfer and registration of shares</p> <p>(C) Depreciation calculation</p> <p>(D) Tax compliance</p> | <p>5. अंश हस्तान्तरण अंकेक्षण सुनिश्चित करता है:</p> <p>(A) लाभ की गणना</p> <p>(B) अंशों का सही हस्तान्तरण और पंजीकरण</p> <p>(C) मूल्यह्रास की गणना</p> <p>(D) कर अनुपालन</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>6. The overall objective of company audit is to :</p> <p>(A) Help management</p> <p>(B) Calculate tax</p> <p>(C) Increase profit</p> <p>(D) Express independent opinion on financial statements</p> | <p>6. कम्पनी अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य क्या है?</p> <p>(A) प्रबन्धन की सहायता करना</p> <p>(B) कर की गणना करना</p> <p>(C) लाभ बढ़ाना</p> <p>(D) वित्तीय विवरणों पर स्वतन्त्र राय व्यक्त करना</p> |
| <p>7. Audit of Public Sector Undertakings (PSUs) is conducted by :</p> <p>(A) Private auditor only</p> <p>(B) RBI</p> <p>(C) Comptroller and Auditor General (CAG) of India</p> <p>(D) SEBI</p> | <p>7. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का अंकेक्षण कौन करता है?</p> <p>(A) निजी अंकेक्षक</p> <p>(B) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>(C) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक</p> <p>(D) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड</p> |
| <p>8. The audit of Government Companies is supervised by :</p> <p>(A) SEBI</p> <p>(B) RBI</p> <p>(C) CAG of India</p> <p>(D) Finance Minister</p> | <p>8. सरकारी कम्पनियों के अंकेक्षण की देखरेख कौन करता है?</p> <p>(A) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड</p> <p>(B) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>(C) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक</p> <p>(D) वित्त मंत्री</p> |
| <p>9. Statutory corporations are created by :</p> <p>(A) Memorandum of Association</p> <p>(B) Articles of Association</p> <p>(C) Special Act of Parliament/ Legislature</p> <p>(D) Registrar of Companies</p> | <p>9. वैधानिक निगम बनाए जाते हैं :</p> <p>(A) पार्षद सीमानियम से</p> <p>(B) पार्षद अंतर्नियम से</p> <p>(C) संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम से</p> <p>(D) कम्पनी पंजीयक से</p> |
| <p>10. Audit of banks in India is governed by :</p> <p>(A) Companies Act only</p> <p>(B) Income Tax Act</p> <p>(C) Banking Regulation Act</p> <p>(D) SEBI Act</p> | <p>10. भारत में बैंक अंकेक्षण किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित है?</p> <p>(A) कम्पनी अधिनियम</p> <p>(B) आयकर अधिनियम</p> <p>(C) बैंकिंग विनियमन अधिनियम</p> <p>(D) प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>11. Internal auditor is appointed by :</p> <p>(A) Shareholders</p> <p>(B) CAG</p> <p>(C) Management</p> <p>(D) RBI</p> | <p>11. आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है?</p> <p>(A) अंशधारक</p> <p>(B) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक</p> <p>(C) प्रबन्धन</p> <p>(D) भारतीय रिजर्व बैंक</p> |
| <p>12. One key difference between internal and statutory audit is:</p> <p>(A) Both are compulsory</p> <p>(B) Both report to management</p> <p>(C) Internal audit is for management, statutory audit is for shareholders</p> <p>(D) No difference</p> | <p>12. आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है?</p> <p>(A) दोनों अनिवार्य हैं</p> <p>(B) दोनों प्रबन्धन को प्रतिवेदन देते हैं</p> <p>(C) आंतरिक अंकेक्षण प्रबन्धन के लिए होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण शेयरधारकों के लिए होता है</p> <p>(D) कोई अंतर नहीं है</p> |
| <p>13. Provisioning in banks relates to :</p> <p>(A) Salary payment</p> <p>(B) Fixed assets</p> <p>(C) Bad and doubtful debts</p> <p>(D) Share issue</p> | <p>13. बैंकों में प्रावधान किससे सम्बन्धित है?</p> <p>(A) वेतन भुगतान</p> <p>(B) स्थायी संपत्तियाँ</p> <p>(C) संदिग्ध और खराब ऋण</p> <p>(D) अंश निर्गम</p> |
| <p>14. Audit of Government departments is called:</p> <p>(A) Private audit</p> <p>(B) Cost audit</p> <p>(C) Government audit</p> <p>(D) Internal audit</p> | <p>14. सरकारी विभागों के अंकेक्षण को क्या कहा जाता है?</p> <p>(A) निजी अंकेक्षण</p> <p>(B) लागत अंकेक्षण</p> <p>(C) सरकारी अंकेक्षण</p> <p>(D) आंतरिक अंकेक्षण</p> |
| <p>15. The relationship between internal auditor and statutory auditor is :</p> <p>(A) No relation</p> <p>(B) Competitive</p> <p>(C) Complementary</p> <p>(D) Conflicting</p> | <p>15. आन्तरिक अंकेक्षक और वैधानिक अंकेक्षक के बीच सम्बन्ध कैसा होता है?</p> <p>(A) कोई सम्बन्ध नहीं</p> <p>(B) प्रतिस्पर्धात्मक</p> <p>(C) पूरक</p> <p>(D) विरोधात्मक</p> |

16. The first auditor of a company is appointed by :
- (A) Shareholders
(B) CAG
(C) Board of Directors
(D) Registrar of Companies
17. Subsequent auditor of a company is appointed by :
- (A) Board of Directors
(B) Government
(C) Shareholders at AGM
(D) Managing Director
18. An auditor of a company must be :
- (A) Advocate
(B) Cost Accountant
(C) Chartered Accountant
(D) Company Secretary
19. A person is disqualified as auditor if he :
- (A) Is a CA
(B) Is independent
(C) Is indebted to the company beyond prescribed limit
(D) Is resident in India
20. The auditor has the right to :
- (A) Prepare accounts
(B) Increase share capital
(C) Access books of accounts at all times
(D) Declare dividend
16. कम्पनी का पहला अंकेक्षक नियुक्त करता है:
- (A) शेयरधारक
(B) भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
(C) निदेशक मंडल
(D) कम्पनी पंजीयक
17. बाद का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है :
- (A) निदेशक मंडल द्वारा
(B) सरकार द्वारा
(C) वार्षिक सामान्य सभा में शेयरधारकों द्वारा
(D) प्रबन्ध निदेशक द्वारा
18. कम्पनी का अंकेक्षक होना चाहिए :
- (A) वकील
(B) लागत लेखाकार
(C) चार्टर्ड अकाउंटेंट
(D) कम्पनी सचिव
19. निम्न में से कौन व्यक्ति अंकेक्षक बनने के लिए अयोग्य है?
- (A) चार्टर्ड अकाउंटेंट हो
(B) स्वतन्त्र हो
(C) कम्पनी का निर्धारित सीमा से अधिक ऋणी हो
(D) भारत का निवासी हो
20. अंकेक्षक को अधिकार है :
- (A) खाते तैयार करने का
(B) अंश पूंजी बढ़ाने का
(C) किसी भी समय खातों की पुस्तकों तक पहुँच का
(D) लाभांश घोषित करने का

21. Non-profit organizations are primarily established for :
- (A) Profit earning
(B) Tax evasion
(C) Charitable or social objectives
(D) Dividend distribution
22. The main document examined in audit of NPOs is :
- (A) Profit & Loss Account
(B) Receipts and Payments Account
(C) Cash Credit Account
(D) Trading Account
23. The objective of cost audit is to:
- (A) Increase profit
(B) Verify correctness of cost records
(C) Reduce wages
(D) Increase tax
24. Tax audit is conducted under :
- (A) Companies Act
(B) Income Tax Act
(C) Banking Regulation Act
(D) Insurance Act
25. Social audit evaluates :
- (A) Financial profit
(B) Tax liability
(C) Social performance and impact
(D) Cost records
21. गैर-लाभकारी संगठन मुख्य रूप से स्थापित होते हैं :
- (A) लाभ कमाने के लिए
(B) कर चोरी के लिए
(C) सामाजिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए
(D) लाभांश वितरण के लिए
22. गैर-लाभकारी संगठन के अंकेक्षण में मुख्य दस्तावेज है :
- (A) लाभ-हानि खाता
(B) प्राप्ति और भुगतान खाता
(C) नकद ऋण खाता
(D) व्यापार खाता
23. लागत अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है?
- (A) लाभ बढ़ाना
(B) लागत अभिलेखों की शुद्धता की जाँच करना
(C) मजदूरी कम करना
(D) कर बढ़ाना
24. कर अंकेक्षण किस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है?
- (A) कम्पनी अधिनियम
(B) आयकर अधिनियम
(C) बैंकिंग विनियमन अधिनियम
(D) बीमा अधिनियम
25. सामाजिक अंकेक्षण किसका मूल्यांकन करता है?
- (A) वित्तीय लाभ
(B) कर देयता
(C) सामाजिक प्रदर्शन और प्रभाव
(D) लागत अभिलेख

26. Social audit is mainly concerned with :
- (A) Profitability
(B) Liquidity
(C) Corporate social responsibility and public welfare
(D) Tax planning
27. The overall aim of public sector audit is to ensure:
- (A) High profit
(B) Dividend payment
(C) Accountability and transparency in use of public funds
(D) Tax reduction
28. An audit is a check of a company's:
- (A) Marketing strategy
(B) Financial records
(C) Employee satisfaction
(D) Office security
29. If an auditor finds a small mistake that won't affect anyone's decision, it is considered :
- (A) Immaterial
(B) Fraudulent
(C) Material
(D) Criminal
30. The final report an auditor gives at the end of their work is called the :
- (A) Audit plan
(B) Audit note
(C) Audit opinion
(D) Audit invoice
26. सामाजिक अंकेक्षण मुख्य रूप से किससे सम्बन्धित है?
- (A) लाभप्रदता
(B) तरलता
(C) निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व और जनकल्याण
(D) कर योजना
27. सार्वजनिक क्षेत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
- (A) अधिक लाभ
(B) लाभांश का भुगतान
(C) सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता
(D) कर में कमी
28. अंकेक्षण क्या होता है?
- (A) कम्पनी की विपणन रणनीति की जाँच
(B) कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों की जाँच
(C) कर्मचारियों की संतुष्टि की जाँच
(D) कार्यालय की सुरक्षा की जाँच
29. यदि अंकेक्षक को कोई छोटी गलती मिलती है जो किसी के निर्णय को प्रभावित नहीं करती, तो उसे क्या कहा जाता है?
- (A) अमहत्त्वपूर्ण
(B) धोखाधड़ीपूर्ण
(C) महत्त्वपूर्ण
(D) आपराधिक
30. अंकेक्षक अपने कार्य के अंत में जो अन्तिम प्रतिवेदन देता है, उसे क्या कहा जाता है?
- (A) अंकेक्षण योजना
(B) अंकेक्षण टिप्पणी
(C) अंकेक्षण राय
(D) अंकेक्षण चालान

31. Auditor's primary duty is towards :
- (A) Directors
(B) Government
(C) Employees
(D) Shareholders
32. The auditor must ensure that :
- (A) Profit is maximized
(B) Expenses are minimized
(C) Books are maintained as per law
(D) Sales are increased
33. An auditor cannot :
- (A) Access records
(B) Seek explanations
(C) Participate in management decisions
(D) Report fraud
34. Qualification in audit report is made when :
- (A) Accounts are perfect
(B) No discrepancy
(C) Material misstatement exists
(D) Profit is high
35. The auditor is considered an officer of the company for :
- (A) Salary purpose
(B) Management purpose
(C) Liability purpose
(D) Dividend purpose
31. अंकेक्षक का प्राथमिक कर्तव्य किसके प्रति होता है?
- (A) निदेशकों के प्रति
(B) सरकार के प्रति
(C) कर्मचारियों के प्रति
(D) अंशधारकों के प्रति
32. अंकेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :
- (A) लाभ अधिकतम हो
(B) व्यय न्यूनतम हो
(C) लेखा पुस्तकें कानून के अनुसार रखी गई हों
(D) बिक्री बढ़े
33. अंकेक्षक क्या नहीं कर सकता?
- (A) अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त करना
(B) स्पष्टीकरण मांगना
(C) प्रबन्धन के निर्णयों में भाग लेना
(D) धोखाधड़ी की सूचना देना
34. अंकेक्षण प्रतिवेदन में शर्त कब जोड़ी जाती है?
- (A) जब खाते पूर्णतः सही हों
(B) जब कोई त्रुटि न हो
(C) जब महत्वपूर्ण गलत विवरण हो
(D) जब लाभ अधिक हो
35. अंकेक्षक को कम्पनी का अधिकारी किस उद्देश्य से माना जाता है?
- (A) वेतन के उद्देश्य से
(B) प्रबन्धन के उद्देश्य से
(C) दायित्व के उद्देश्य से
(D) लाभांश के उद्देश्य से

36. The appointment of bank auditor is approved by :
- (A) SEBI
(B) Government only
(C) Reserve Bank of India (RBI)
(D) CAG
37. In bank audit, verification of advances is important to ensure :
- (A) Profit maximization
(B) Proper classification and provisioning
(C) Increase in deposits
(D) Reduction of expenses
38. Non-Performing Assets (NPAs) relate to:
- (A) Fixed assets
(B) Investments
(C) Loans and advances
(D) Share capital
39. Audit of insurance companies is governed by :
- (A) Companies Act
(B) Insurance Act
(C) Banking Regulation Act
(D) Income Tax Act
40. In insurance audit, valuation of liabilities relates to :
- (A) Furniture
(B) Cash
(C) Outstanding claims
(D) Share capital
36. बैंक अंकेक्षक की नियुक्ति को स्वीकृति देता है:
- (A) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(B) सरकार
(C) भारतीय रिजर्व बैंक
(D) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
37. बैंक अंकेक्षण में अग्रिम भुगतानों का सत्यापन महत्वपूर्ण है क्योंकि :
- (A) लाभ बढ़े
(B) सही वर्गीकरण और प्रावधान सुनिश्चित हो
(C) जमा बढ़े
(D) खर्च कम हो
38. गैर निष्पादित सम्पत्ति किससे सम्बन्धित है?
- (A) स्थायी सम्पत्ति
(B) निवेश
(C) ऋण और अग्रिम
(D) अंश पूंजी
39. बीमा कम्पनियों का अंकेक्षण किस अधिनियम के अन्तर्गत होता है?
- (A) कम्पनी अधिनियम
(B) बीमा अधिनियम
(C) बैंकिंग विनियमन अधिनियम
(D) आयकर अधिनियम
40. बीमा अंकेक्षण में देनदारियों का मूल्यांकन किससे सम्बन्धित है?
- (A) फर्नीचर
(B) नकद
(C) लम्बित दावे
(D) अंश पूंजी

41. Who usually carries out an external audit?
- (A) The company's own accountant
(B) A team of lawyers
(C) An independent firm of auditors
(D) The company's bank manager
42. To be trustworthy, an auditor must be :
- (A) Friendly with the staff
(B) Independent of the company
(C) Working for the government
(D) A shareholder of the company
43. Which of these is a basic audit procedure?
- (A) Counting physical cash in the till
(B) Designing a new company logo
(C) Hiring new staff for the client
(D) Deciding on the company's dividend payment
44. A good auditor must be :
- (A) A member of the company's family
(B) Skeptical and questioning
(C) Easily convinced by explanations
(D) Focused only on finding fraud
45. An auditor gathers "audit evidence" to :
- (A) Increase the audit fee
(B) Prove the auditor worked hard
(C) Support their opinion on the financial statements
(D) Help the company write its business plan
41. बाह्य अंकेक्षण सामान्यतः कौन करता है?
- (A) कम्पनी का अपना लेखाकार
(B) विधिवेत्ताओं की टीम
(C) स्वतन्त्र अंकेक्षकों की संस्था
(D) कम्पनी का बैंक प्रबन्धक
42. विश्वसनीय होने के लिए अंकेक्षक को क्या होना चाहिए?
- (A) कर्मचारियों का मित्र
(B) कम्पनी से स्वतन्त्र
(C) सरकार के लिए कार्य करने वाला
(D) कम्पनी का अंशधारक
43. निम्न में से कौन-सी एक मूलभूत अंकेक्षण प्रक्रिया है?
- (A) नकदी की भौतिक गणना करना
(B) कम्पनी का नया चिह्न बनाना
(C) ग्राहक के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करना
(D) कम्पनी के लाभान्श भुगतान का निर्णय करना
44. एक अच्छा अंकेक्षक कैसा होना चाहिए?
- (A) कम्पनी के परिवार का सदस्य
(B) संदेहशील और प्रश्न पूछने वाला
(C) आसानी से स्पष्टीकरण पर विश्वास करने वाला
(D) केवल धोखाधड़ी खोजने पर ध्यान देने वाला
45. अंकेक्षक अंकेक्षण साक्ष्य क्यों एकत्र करता है?
- (A) अंकेक्षण शुल्क बढ़ाने के लिए
(B) यह सिद्ध करने के लिए कि अंकेक्षक ने कड़ी मेहनत की
(C) वित्तीय विवरणों पर अपनी राय का समर्थन करने के लिए
(D) कम्पनी को उसकी व्यापार योजना बनाने में सहायता करने के लिए

46. Managerial remuneration is governed by provisions of :
- (A) Income Tax Act
(B) Banking Act
(C) Companies Act
(D) RBI Act
47. The auditor has the right to attend :
- (A) Board meeting only
(B) Directors meeting
(C) General Meeting of shareholders
(D) Staff meeting
48. Ceiling on number of audits is prescribed to ensure :
- (A) More income
(B) Proper attention and efficiency
(C) Quick reporting
(D) Tax benefit
49. If auditor fails to comply with provisions, he may be :
- (A) Promoted
(B) Rewarded
(C) Fined or punished
(D) Exempted
50. Verification of calls in arrears relates to :
- (A) Debentures
(B) Share capital
(C) Loans
(D) Reserves
46. प्रबन्धकीय पारिश्रमिक किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है?
- (A) आयकर अधिनियम
(B) बैंकिंग अधिनियम
(C) कम्पनी अधिनियम
(D) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
47. अंकेक्षक को किस बैठक में उपस्थित होने का अधिकार होता है?
- (A) केवल बोर्ड बैठक
(B) निदेशकों की बैठक
(C) अंशधारकों की सामान्य सभा
(D) कर्मचारियों की बैठक
48. अंकेक्षणों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है?
- (A) अधिक आय प्राप्त करना
(B) उचित ध्यान और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना
(C) शीघ्र प्रतिवेदन करना
(D) कर लाभ प्राप्त करना
49. यदि अंकेक्षक प्रावधानों का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे क्या हो सकता है?
- (A) पदोन्नति दी जा सकती है
(B) पुरस्कृत किया जा सकता है
(C) जुर्माना या दंड दिया जा सकता है
(D) छूट दी जा सकती है
50. अदत्त माँग का सत्यापन किससे सम्बन्धित है?
- (A) ऋण-पत्र
(B) अंश पूँजी
(C) ऋण
(D) आरक्षित निधि

51. Which of the following is not a type of audit?
- (A) Internal audit
(B) Statutory audit
(C) Continuous audit
(D) Trial balance audit
52. The nature of audit is :
- (A) Investigative only
(B) Clerical work
(C) Examination and verification
(D) Management function
53. Audit evidence is required to:
- (A) Prepare accounts
(B) Support auditor's opinion
(C) Increase profit
(D) Reduce expenses
54. The auditor's opinion is given in :
- (A) Balance sheet
(B) Profit and loss account
(C) Cash book
(D) Audit report
55. Vouching is related to :
- (A) Verification of assets
(B) Checking of vouchers
(C) Preparation of ledger
(D) Costing
51. निम्न में से कौन-सा अंकेक्षण का प्रकार नहीं है?
- (A) आन्तरिक अंकेक्षण
(B) वैधानिक अंकेक्षण
(C) निरंतर अंकेक्षण
(D) परीक्षण संतुलन अंकेक्षण
52. अंकेक्षण का स्वरूप क्या है?
- (A) केवल जाँच-पड़ताल
(B) लिपिकीय कार्य
(C) परीक्षण और सत्यापन
(D) प्रबन्धन कार्य
53. अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है?
- (A) खाते तैयार करने के लिए
(B) अंकेक्षक की राय का समर्थन करने के लिए
(C) लाभ बढ़ाने के लिए
(D) खर्च कम करने के लिए
54. अंकेक्षक की राय कहाँ दी जाती है?
- (A) आर्थिक चिट्ठा में
(B) लाभ-हानि खाते में
(C) नकद पुस्तक में
(D) अंकेक्षण प्रतिवेदन में
55. प्रमाणन किससे सम्बन्धित है?
- (A) परिसम्पत्तियों का सत्यापन
(B) प्रमाण-पत्रों की जाँच
(C) खाताबही की तैयारी
(D) लागत निर्धारण

56. Audit primarily means:
- (A) Preparation of accounts
 (B) Checking of vouchers only
 (C) Independent examination of financial statements
 (D) Calculation of profit
57. The main objective of an audit is to:
- (A) Detect all frauds
 (B) Prepare balance sheet
 (C) Express opinion on true and fair view
 (D) Calculate tax
58. Audit is generally conducted after:
- (A) Daily transactions
 (B) Monthly closing
 (C) Preparation of final accounts
 (D) Budget approval
59. The word "Audit" is derived from the Latin word:
- (A) Audire
 (B) Auditum
 (C) Audio
 (D) Audire (to hear)
60. Which of the following is not an objective of audit?
- (A) Detection of errors
 (B) Prevention of fraud
 (C) Moral check on employees
 (D) Preparation of accounts
56. अंकेक्षण का मुख्य अर्थ है :
- (A) खातों की तैयारी
 (B) केवल प्रमाण-पत्रों की जाँच
 (C) वित्तीय विवरणों की स्वतन्त्र जाँच
 (D) लाभ की गणना
57. अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है :
- (A) सभी धोखाधड़ी का पता लगाना
 (B) आर्थिक विवरण तैयार करना
 (C) सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर राय व्यक्त करना
 (D) कर की गणना करना
58. अंकेक्षण सामान्यतः किया जाता है :
- (A) दैनिक लेन-देन के बाद
 (B) मासिक समापन के बाद
 (C) अंतिम खातों की तैयारी के बाद
 (D) बजट स्वीकृति के बाद
59. 'अंकेक्षण' शब्द किस लैटिन शब्द से निकला है?
- (A) ऑडिरे
 (B) ऑडिटम
 (C) ऑडियो
 (D) ऑडिरे (अर्थ : सुनना)
60. निम्न में से कौन अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है?
- (A) त्रुटियों का पता लगाना
 (B) धोखाधड़ी की रोकथाम
 (C) कर्मचारियों पर नैतिक नियन्त्रण
 (D) खातों की तैयारी

61. Which is not included in auditor's report?
- (A) Opinion paragraph
(B) Basis of opinion
(C) Auditor's signature
(D) Manager's salary details
62. Vouching is the backbone of :
- (A) Verification
(B) Valuation
(C) Auditing
(D) Costing
63. Which sampling method is scientific?
- (A) Random selection
(B) Judgment sampling
(C) Statistical sampling
(D) Personal selection
64. A clean audit report enhances :
- (A) Tax liability
(B) Employee turnover
(C) Credibility of financial statements
(D) Expenses
65. The ultimate aim of audit procedures is to :
- (A) Detect every fraud
(B) Increase profit
(C) Express independent opinion on financial statements
(D) Prepare accounts
61. निम्न में से कौन-सा अंकेक्षक के प्रतिवेदन में शामिल नहीं होता है?
- (A) राय का अनुच्छेद
(B) राय का आधार
(C) अंकेक्षक के हस्ताक्षर
(D) प्रबन्धक के वेतन का विवरण
62. प्रमाणन को किसका आधार माना जाता है?
- (A) सत्यापन
(B) मूल्यांकन
(C) अंकेक्षण
(D) लागत निर्धारण
63. निम्न में से कौन-सी नमूना चयन विधि वैज्ञानिक है?
- (A) यादृच्छिक चयन
(B) निर्णय आधारित नमूना
(C) सांख्यिकीय नमूना
(D) व्यक्तिगत चयन
64. एक स्वच्छ अंकेक्षण प्रतिवेदन किसे बढ़ाता है?
- (A) कर देयता
(B) कर्मचारियों का आवर्त
(C) वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता
(D) व्यय
65. अंकेक्षण प्रक्रियाओं का अन्तिम उद्देश्य क्या है?
- (A) हर धोखाधड़ी का पता लगाना
(B) लाभ बढ़ाना
(C) वित्तीय विवरणों पर स्वतन्त्र राय व्यक्त करना
(D) खाते तैयार करना

66. Test checking is based on :
- (A) Complete checking
(B) Routine checking
(C) Sampling method
(D) Internal audit
67. Audit in depth means :
- (A) Checking all entries
(B) Detailed examination of selected transactions from beginning to end
(C) Checking only cash book
(D) Checking trial balance
68. Statistical sampling in audit is used to :
- (A) Calculate profit
(B) Detect fraud only
(C) Select representative samples scientifically
(D) Prepare balance sheet
69. Routine checking includes :
- (A) Verification of assets
(B) Checking casting, posting and balancing
(C) Preparing final accounts
(D) Valuation of goodwill
70. Verification of assets implies :
- (A) Checking vouchers
(B) Physical counting only
(C) Confirming existence, ownership and value
(D) Checking trial balance
66. परीक्षण जाँच किस पर आधारित है?
- (A) पूर्ण जाँच
(B) नियमित जाँच
(C) नमूना विधि
(D) आन्तरिक अंकेक्षण
67. गहन अंकेक्षण का अर्थ है :
- (A) सभी प्रविष्टियों की जाँच
(B) चुने हुए लेनदेन का प्रारम्भ से अंत तक विस्तृत परीक्षण
(C) केवल नकद पुस्तक की जाँच
(D) परीक्षण संतुलन की जाँच
68. सांख्यिकीय नमूना का उपयोग किसलिए किया जाता है?
- (A) लाभ की गणना
(B) केवल धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए
(C) वैज्ञानिक तरीके से प्रतिनिधि नमूना चुनने के लिए
(D) आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के लिए
69. नियमित जाँच में क्या शामिल है?
- (A) परिसम्पत्तियों का सत्यापन
(B) जोड़, अभिलेखन और संतुलन की जाँच
(C) अन्तिम खाते तैयार करना
(D) साख का मूल्यांकन
70. परिसम्पत्तियों के सत्यापन का अर्थ है :
- (A) प्रमाण-पत्रों की जाँच
(B) केवल भौतिक गणना
(C) अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्य की पुष्टि
(D) परीक्षण संतुलन की जाँच

71. Internal audit is conducted by:
- (A) External auditor
(B) Government
(C) Employees of the organization
(D) Shareholders
72. Statutory audit is compulsory under:
- (A) Partnership Act
(B) Income Tax Act
(C) Companies Act
(D) Banking Regulation Act
72. Continuous audit is suitable for :
- (A) Small firms
(B) NGOs
(C) Large organizations
(D) Individual business
74. An audit conducted at the end of the year is called:
- (A) Continuous audit
(B) Final audit
(C) Interim audit
(D) Internal audit
75. Test checking means:
- (A) Checking all transactions
(B) Checking selected transactions
(C) Checking only cash book
(D) Checking vouchers only
71. आन्तरिक अंकेक्षण किया जाता है :
- (A) बाहरी अंकेक्षक द्वारा
(B) सरकार द्वारा
(C) संगठन के कर्मचारियों द्वारा
(D) अंशधारकों द्वारा
72. वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है :
- (A) साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत
(B) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत
(C) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत
(D) बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत
73. चालू अंकेक्षण उपयुक्त है :
- (A) छोटे व्यवसायों के लिए
(B) गैर-सरकारी संगठनों के लिए
(C) बड़े संगठनों के लिए
(D) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए
74. वर्ष के अंत में किया जाने वाला अंकेक्षण कहलाता है :
- (A) निरंतर अंकेक्षण
(B) अंतिम अंकेक्षण
(C) अंतरिम अंकेक्षण
(D) आन्तरिक अंकेक्षण
75. परीक्षण जाँच का अर्थ है :
- (A) सभी लेन-देन की जाँच
(B) चयनित लेन-देन की जाँच
(C) केवल नकद पुस्तक की जाँच
(D) केवल प्रमाण-पत्रों की जाँच

76. Valuation of assets ensures :
- (A) Assets are recorded
 (B) Assets are shown at correct value
 (C) Profits are increased
 (D) Cash is verified
77. Which of the following is not a method of valuation?
- (A) Cost price
 (B) Market price
 (C) Cost or market price whichever is lower
 (D) Face value only
78. The auditor's report is addressed to :
- (A) Directors
 (B) Manager
 (C) Government
 (D) Shareholders
79. An unqualified report indicates :
- (A) Fraud exists
 (B) Accounts are incorrect
 (C) True and fair view
 (D) Disclaimer of opinion
80. A qualified report is issued when :
- (A) Everything is correct
 (B) No evidence is available
 (C) There is some material misstatement
 (D) Auditor resigns
76. परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है?
- (A) परिसम्पत्तियाँ दर्ज हैं
 (B) परिसम्पत्तियाँ सही मूल्य पर प्रदर्शित हैं
 (C) लाभ बढ़ता है
 (D) नकद की जाँच होती है
77. निम्न में से कौन-सी मूल्यांकन विधि नहीं है?
- (A) लागत मूल्य
 (B) बाजार मूल्य
 (C) लागत या बाजार मूल्य जो कम हो
 (D) केवल अंकित मूल्य
78. अंकेक्षक की प्रतिवेदन किसे सम्बोधित होती है?
- (A) निदेशकों को
 (B) प्रबन्धक को
 (C) सरकार को
 (D) शेयरधारकों को
79. अमर्यादित प्रतिवेदन का अर्थ है :
- (A) धोखाधड़ी मौजूद है
 (B) खाते गलत हैं
 (C) सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण
 (D) राय से इंकार
80. मर्यादित प्रतिवेदन कब जारी किया जाता है?
- (A) जब सब कुछ सही हो
 (B) जब कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो
 (C) जब कुछ महत्वपूर्ण त्रुटि हो
 (D) जब अंकेक्षक इस्तीफा दे दे

81. Verification means :
- (A) Checking entries
(B) Checking vouchers
(C) Confirming existence and ownership of assets
(D) Calculating profit
82. Which is an example of external audit?
- (A) Internal audit
(B) Statutory audit
(C) Cost audit
(D) Interim audit
83. The primary responsibility for prevention of fraud lies with :
- (A) Auditor
(B) Shareholders
(C) Management
(D) Government
84. Audit programme refers to :
- (A) Financial statement
(B) Internal control
(C) Detailed plan of audit work
(D) Tax return
85. Interim audit is conducted :
- (A) At year end
(B) Once in 5 years
(C) Between two annual audits
(D) Before incorporation
81. सत्यापन का अर्थ है :
- (A) प्रविष्टियों की जाँच
(B) प्रमाण-पत्रों की जाँच
(C) परिसम्पत्तियों के अस्तित्व और स्वामित्व की पुष्टि
(D) लाभ की गणना
82. निम्न में से बाह्य अंकेक्षण का उदाहरण कौन-सा है?
- (A) आन्तरिक अंकेक्षण
(B) वैधानिक अंकेक्षण
(C) लागत अंकेक्षण
(D) अंतरिम अंकेक्षण
83. धोखाधड़ी की रोकथाम की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है?
- (A) अंकेक्षक
(B) शेयरधारक
(C) प्रबन्धन
(D) सरकार
84. अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ है :
- (A) वित्तीय विवरण
(B) आन्तरिक नियन्त्रण
(C) अंकेक्षण कार्य की विस्तृत योजना
(D) कर विवरण
85. अंतरिम अंकेक्षण कब किया जाता है?
- (A) वर्ष के अंत में
(B) पाँच वर्ष में एक बार
(C) दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच
(D) कम्पनी के गठन से पहले

86. Which is a class of audit?
- (A) Costing
(B) Budgeting
(C) Accounting
(D) Management audit
87. The auditor should be:
- (A) Biased
(B) Influenced by management
(C) Independent
(D) A shareholder
88. The concept of "True and Fair View" relates to :
- (A) Fraud detection
(B) Financial statements
(C) Internal control
(D) Cost audit
89. Internal control helps in :
- (A) Increasing sales
(B) Reducing tax
(C) Preventing errors and frauds
(D) Preparing accounts
90. Internal check is a part of :
- (A) Cost audit
(B) Tax audit
(C) Internal control system
(D) Government audit
86. निम्न में से कौन-सा अंकेक्षण का एक प्रकार है?
- (A) लागत निर्धारण
(B) बजट निर्माण
(C) लेखांकन
(D) प्रबन्धन अंकेक्षण
87. अंकेक्षक को होना चाहिए :
- (A) पक्षपाती
(B) प्रबन्धन से प्रभावित
(C) स्वतन्त्र
(D) एक शेयरधारक
88. "सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण" की अवधारणा किससे सम्बन्धित है?
- (A) धोखाधड़ी का पता लगाना
(B) वित्तीय विवरण
(C) आन्तरिक नियन्त्रण
(D) लागत अंकेक्षण
89. आन्तरिक नियन्त्रण किसमें सहायता करता है?
- (A) बिक्री बढ़ाने में
(B) कर कम करने में
(C) त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने में
(D) खातों की तैयारी में
90. आन्तरिक जाँच किसका भाग है?
- (A) लागत अंकेक्षण
(B) कर अंकेक्षण
(C) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
(D) सरकारी अंकेक्षण

91. The scope of audit depends upon:
- (A) Size of firm only
(B) Nature of business only
(C) Auditor's wish
(D) Objectives and legal requirements
92. An auditor should maintain :
- (A) Secrecy only
(B) Integrity only
(C) Objectivity only
(D) Integrity, objectivity and independence
93. Audit standards provide :
- (A) Accounting rules
(B) Tax rates
(C) Guidelines for auditors
(D) Company law provisions
94. The need for evaluation of internal control is to :
- (A) Increase sales
(B) Avoid taxation
(C) Decide extent of audit testing
(D) Prepare balance sheet
95. Audit programme is:
- (A) Audit report
(B) Ledger account
(C) Detailed written plan of audit work
(D) Cash book
91. अंकेक्षण का दायरा किस पर निर्भर करता है?
- (A) केवल फर्म के आकार पर
(B) केवल व्यवसाय के स्वरूप पर
(C) अंकेक्षक की इच्छा पर
(D) उद्देश्यों और कानूनी आवश्यकताओं पर
92. अंकेक्षक को बनाए रखना चाहिए :
- (A) केवल गोपनीयता
(B) केवल ईमानदारी
(C) केवल निष्पक्षता
(D) ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता
93. अंकेक्षण मानक क्या प्रदान करते हैं?
- (A) लेखांकन नियम
(B) कर दरें
(C) अंकेक्षकों के लिए दिशानिर्देश
(D) कम्पनी कानून के प्रावधान
94. आन्तरिक नियन्त्रण का मूल्यांकन क्यों किया जाता है?
- (A) बिक्री बढ़ाने के लिए
(B) कर से बचने के लिए
(C) अंकेक्षण परीक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए
(D) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए
95. अंकेक्षण कार्यक्रम है :
- (A) अंकेक्षण प्रतिवेदन
(B) बहीखाता
(C) अंकेक्षण कार्य की विस्तृत लिखित योजना
(D) नकद बही

96. A disclaimer of opinion is given when :
- (A) Accounts are correct
(B) Auditor lacks sufficient evidence
(C) Minor error exists
(D) Profit is low
97. Verification of liabilities aims to :
- (A) Increase expenses
(B) Reduce profit
(C) Ensure completeness and correctness
(D) Prepare ledger
98. Audit evidence should be :
- (A) Oral only
(B) Written only
(C) Sufficient and appropriate
(D) Estimated
99. Which asset requires physical verification?
- (A) Goodwill
(B) Patents
(C) Stock
(D) Debtors
100. Valuation of stock is generally done at :
- (A) Selling price
(B) Cost price
(C) Market price
(D) Cost or Net Realizable Value whichever is lower
96. अभिमत से इंकार (राय की अस्वीकार्यता) कब किया जाता है?
- (A) जब खाते सही हों
(B) जब अंकेक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य न हो
(C) जब छोटी त्रुटि हो
(D) जब लाभ कम हो
97. देनदारियों के सत्यापन का उद्देश्य क्या है?
- (A) व्यय बढ़ाना
(B) लाभ कम करना
(C) पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करना
(D) खाता-बही तैयार करना
98. अंकेक्षण साक्ष्य कैसा होना चाहिए?
- (A) केवल मौखिक
(B) केवल लिखित
(C) पर्याप्त और उपयुक्त
(D) अनुमानित
99. निम्न में से किस सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन आवश्यक होता है?
- (A) साख
(B) पेटेंट अधिकार
(C) भण्डार
(D) देनदार
100. भण्डार का मूल्यांकन सामान्यतः किस आधार पर किया जाता है?
- (A) विक्रय मूल्य
(B) लागत मूल्य
(C) बाजार मूल्य
(D) लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Imp. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।